

**Lakshmi Chalisa** एक प्रसिद्ध हिंदी धार्मिक स्तोत्र है, जो भगवती लक्ष्मी की महिमा और वरदानों की प्रशंसा करता है। भगवती लक्ष्मी को समृद्धि, सौभाग्य, सम्पत्ति, धन, विद्या, धैर्य और समान्य वैभव की देवी माना जाता है। **Lakshmi Chalisa** को विशेषकर दीपावली, नवरात्रि और अमावस्या जैसे अवसरों पर भक्तों द्वारा उच्चरित किया जाता है।

## ॥ श्री लक्ष्मी चालीसा ॥ Shree Lakshmi Chalisa ॥

### ॥ दोहा ॥

मातु लक्ष्मी करि कृपा, करो हृदय में वास ।  
मनोकामना सिद्ध करि, परुवहु मेरी आस ॥

### ॥ सोरठा ॥

यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करुं ।  
सब विधि करौ सुवास, जय जननि जगदंबिका ॥

### ॥ चौपाई ॥

सिन्धु सुता मैं सुमिरौ तोही ।  
ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही ॥

तुम समान नहीं कोई उपकारी ।  
सब विधि पुरवहु आस हमारी ॥

जय जय जगत जननि जगदम्बा ।  
सबकी तुम ही हो अवलम्बा ॥

तुम ही हो सब घट घट वासी ।  
विनती यही हमारी खासी ॥

जगजननी जय सिन्धु कुमारी ।  
दीनन की तुम हो हितकारी ॥

विनवौं नित्य तुमहिं महारानी ।  
कृपा करौ जग जननि भवानी ॥

केहि विधि स्तुति करौं तिहारी ।  
सुधि लीजै अपराध बिसारी ॥

कृपा दृष्टि चितववो मम ओरी ।  
जगजननी विनती सुन मोरी ॥

ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता ।  
संकट हरो हमारी माता ॥

क्षीरसिन्धु जब विष्णु मथायो ।  
चौदह रत्न सिन्धु में पायो ॥ 10

चौदह रत्न में तुम सुखरासी ।  
सेवा कियो प्रभु बनि दासी ॥

जब जब जन्म जहां प्रभु लीन्हा ।  
रूप बदल तहं सेवा कीन्हा ॥

स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा ।  
लीन्हेउ अवधपुरी अवतारा ॥

तब तुम प्रगट जनकपुर माहीं ।  
सेवा कियो हृदय पुलकाहीं ॥

अपनाया तोहि अन्तर्यामी ।  
विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी ॥

तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी ।  
कहं लौ महिमा कहौं बखानी ॥

मन क्रम वचन करै सेवकाई ।  
मन इच्छित वांछित फल पाई ॥

तजि छल कपट और चतुराई ।  
पूजहिं विविध भांति मनलाई ॥

और हाल मैं कहौं बुझाई ।  
जो यह पाठ करै मन लाई ॥

ताको कोई कष्ट नोई ।  
मन इच्छित पावै फल सोई ॥ 20

त्राहि त्राहि जय दुःख निवारिणि ।  
त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी ॥

जो चालीसा पढ़ै पढ़ावै ।  
ध्यान लगाकर सुनै सुनावै ॥

**ताकौ कोई न रोग सतावै ।  
पुत्र आदि धन सम्पत्ति पावै ॥**

पुत्रहीन अरु संपत्ति हीना ।  
अन्ध बधिर कोढ़ी अति दीना ॥

**विप्र बोलाय कै पाठ करावै ।  
शंका दिल में कभी न लावै ॥**

पाठ करावै दिन चालीसा ।  
ता पर कृपा करै गौरीसा ॥

**सुख सम्पत्ति बहुत सी पावै ।  
कमी नहीं काहू की आवै ॥**

बारह मास करै जो पूजा ।  
तेहि सम धन्य और नहीं दूजा ॥

**प्रतिदिन पाठ करै मन माही ।  
उन सम कोइ जग में कहूं नाहीं ॥**

बहुविधि क्या मैं करौं बड़ाई ।  
लेय परीक्षा ध्यान लगाई ॥ 30

**करि विश्वास करै व्रत नेमा ।  
होय सिद्ध उपजै उर प्रेमा ॥**

जय जय जय लक्ष्मी भवानी ।  
सब में व्यापित हो गुण खानी ॥

**तुम्हरो तेज प्रबल जग माहीं ।  
तुम सम कोउ दयालु कहूं नाहीं ॥**

मोहि अनाथ की सुधि अब लीजै ।  
संकट काटि भक्ति मोहि दीजै ॥

**भूल चूक करि क्षमा हमारी ।  
दर्शन दजै दशा निहारी ॥**

बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी ।  
तुमहि अछत दुःख सहते भारी ॥

नहिं मोहिं ज्ञान बुद्धि है तन में ।  
सब जानत हो अपने मन में ॥

रुप चतुर्भुज करके धारण ।  
कष्ट मोर अब करहु निवारण ॥

केहि प्रकार मैं करौ बड़ाई ।  
ज्ञान बुद्धि मोहि नहिं अधिकाई ॥

॥ दोहा ॥

त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो वेगि सब त्रास ।  
जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश ॥

रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर ।  
मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर ॥

## श्री Lakshmi Chalisa की महत्वपूर्ण विशेषताएं

**Lakshmi Chalisa** एक प्रसिद्ध हिंदी धार्मिक स्तोत्र है, जो भगवती लक्ष्मी की महिमा और वरदानों की प्रशंसा करता है। भगवती लक्ष्मी को समृद्धि, सौभाग्य, सम्पत्ति, धन, विद्या, धैर्य और समान्य वैभव की देवी माना जाता है। **Lakshmi Chalisa** को विशेषकर दीपावली, नवरात्रि और अमावस्या जैसे अवसरों पर भक्तों द्वारा उच्चरित किया जाता है।

**धन प्राप्ति:** **Lakshmi Chalisa** के पाठ से भक्त भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं और धन, सम्पत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करते हैं।

**समृद्धि की प्राप्ति:** भक्ति भाव से **Lakshmi Chalisa** का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और अनुभवी विकास का सामर्थ्य विकसित होता है।

**सुख-शांति की प्राप्ति:** **Lakshmi Chalisa** के पाठ से मन और आत्मा में शांति और सुख की अनुभूति होती है और व्यक्ति के जीवन में समस्त कष्टों का नाश होता है।

**भक्ति और समर्पण:** **Lakshmi Chalisa** का पाठ करने से भक्त अपने मन को भगवती लक्ष्मी के प्रति समर्पित करते हैं और अपने जीवन को उसके आदर्शों के अनुसार चलाने का संकल्प लेते हैं।

**कल्याणकारी शक्ति:** **Lakshmi Chalisa** में उक्त श्लोकों में गुणों, स्वरूप और महिमा का वर्णन होता है, जिससे भक्त भगवती लक्ष्मी के सात्विक और उदार स्वरूप को समझते हैं।

**धार्मिक अर्थ:** **Lakshmi Chalisa** धार्मिकता, भक्ति और सेवा के मार्ग में चलने की प्रेरणा प्रदान करती है।

इस प्रकार, **Lakshmi Chalisa** भगवती लक्ष्मी के भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक पाठ है, जो उन्हें समृद्धि, सौभाग्य, धन, धैर्य, ज्ञान और सुख-शांति की प्राप्ति में सहायक होता है।

**Visit: <https://sunderkand.net/>**

